

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन फायर अब जॉर्ज हिचकॉक बर्सरी के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 मार्च, 2022) – ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services), जॉर्ज हिचकॉक मेमोरियल एन्डोमेंट फंड (George Hitchcock Memorial Endowment Fund) के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है। यह सालाना बर्सरी (छात्रवृत्ति) प्रोग्राम, फायर सर्विसिज में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए पेश किया जाता है।

आवेदन करने हेतु योग्य होने के लिए, इच्छुक आवेदकों के लिए आवश्यक है:

- व्यक्ति ब्रैम्पटन का निवासी और कॅनेडियन नागरिक हो या कॅनेडा में काम करने योग्य हो
- फायर-संबंधी प्रोग्राम में ओनटैरियो पोस्ट-सेकंडरी स्कूल डिप्लोमा कर रहा हो
- 15 अप्रैल तक पूरा किया आवेदन फार्म जमा करे

आवेदन फार्म [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com) पर उपलब्ध हैं और इन्हें, [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca) पर जमा किए जा सकता है। आवेदन, 15 अप्रैल तक या अधिकतम 30 आवेदन प्राप्त होने तक लिए जाएंगे।

चुने गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और एक आवेदक को 1,000 डॉलर तक के मूल्य की बर्सरी के लिए चुना जाएगा, जिसका भुगतान सीधा कोर्स में दाखिले के लिए किया जाएगा। सफल आवेदक के लिए, ओनटैरियो पोस्ट-सेकंडरी स्कूल प्रोग्राम की स्वीकृति का प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है।

जॉर्ज हिचकॉक मेमोरियल एन्डोमेंट फंड की शुरुआत, स्वर्गीय डिवीजन चीफ जॉर्ज हिचकॉक (George Hitchcock) के सम्मान में, 2014 में की गई थी। उन्होंने 33 वर्षों तक ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज टीम में सेवा दी थी। हिचकॉक ने फायर/लाइफ सेफ्टी एजुकेशन डिवीजन (Fire/Life Safety Education Division) स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जो हर साल ब्रैम्पटन के हज़ारों निवासियों को फायर सेफ्टी एजुकेशन प्रदान करने में सहायता करती है।

अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए, [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com) पर जाएं।

### भर्ती

ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज इस समय, नए फायरफाइटर्स की भर्ती कर रहा है। आवेदन, 21 मार्च तक लिए जाएंगे। फायर सर्विसिज के साथ कैरियर के बारे में अधिक जानने के इच्छुक आवेदकों को, 9 मार्च को शाम 6 बजे, वर्चुअल कैरियर इन्फर्मेशन सेशन (Virtual Career Information Session) में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शामिल होने के लिए, [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com) पर रजिस्टर करें।

ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज के साथ कैरियर बनाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com) पर जाएं।

## हवाले

“हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज टीम में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो कम्युनिटी और फायर सेफ्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं। जॉर्ज हिचकॉक, टीम के प्रेरणादायक मेम्बर हैं और मैं ब्रैम्पटन के फायर सर्विसिज में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक, योग्य ब्रैम्पटन निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे इस अवसर के लिए आवेदन करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज, हमारी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने और ब्रैम्पटन को स्वस्थ तथा सुरक्षित शहर बनाने में योगदान देने हेतु, रोजाना अतिरिक्त प्रयास करता है। वे ऐसी टीम बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, जो विविध, भागीदारी वाली और उस कम्युनिटी के बारे में सोचती हो, जिसे वे सेवा प्रदान करते हैं। इस वर्ष, हमारे नए भावी फायरफाइटर्स को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए, यह सालाना बर्सरी प्रोग्राम दुबारा होते देखना बहुत ही शानदार है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डिवीजन चीफ जॉर्ज हिचकॉक, फायर सर्विसिज और कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए जोशीले चैम्पियन थे। ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज टीम में उनके योगदानों और उभरते फायरफाइटर की हिमायत में मदद के लिए विरासत के तौर पर, यह बर्सरी पेश करना सम्मान की बात है।”

- बिल बोइस (Bill Boyes), चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज

“ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज, कम्युनिटी को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए बिना थके काम करता है। मैं, फायर सर्विसिज में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे, एक शानदार टीम का हिस्सा बनने और ब्रैम्पटन की कम्युनिटी की सेवा करने के लिए, इस रोमांचक अवसर के लिए आवेदन करें।”

- पॉल मॉरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।



## Media Release

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रॅम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)